



### ओनटैरियो सरकार ने स्टे-एट-होम ऑर्डर को 2 जून तक बढ़ा दिया है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 मई, 2021) – आज, ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) ने घोषणा की कि वह प्रोविंसियल स्टे-एट-होम ऑर्डर को, बुधवार, 2 जून, 2021 तक बढ़ा रही है।

#### पब्लिक हेल्थ संबंधी उपाय

एमरजेंसी और स्टे-एट-होम ऑर्डर, दोनों की प्रोविंसियल घोषणा में, कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए इन्हें दो सप्ताह तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। स्टे-एट-होम ऑर्डर की शर्त है कि ग्रासरी स्टोर या फार्मसी जाने, हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने, एक्सरसाइज के लिए जरूरी कामों के लिए जाने जैसे जरूरी उद्देश्यों को छोड़कर, बाकी समय हर कोई घर में ही रहे।

निम्नलिखित पब्लिक हेल्थ और कार्यस्थल संबंधी सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे:

- एक ही घर के सदस्यों या उस घर के बाहर वाले एक अन्य व्यक्ति, जो अकेला रहता है या घर के किसी सदस्य के देखभालकर्ता के साथ इकट्ठे होने के सिवाय, सभी आउटडोर सामाजिक जनसमूहों और संगठित सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है;
- निर्माण क्षेत्र में सभी गैर-जरूरी कार्यस्थल बंद रहेंगे;
- जहां इन-स्टोर खरीदारी की अनुमति है, वहां सभी रिटेल सेटिंग्स में 25 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है। इसमें सुपरमार्केट्स, ग्रासरी स्टोर, कन्वीनिऍंस स्टोर, इनडोर फार्मर्स मार्केट्स, अन्य स्टोर शामिल हैं, जो मुख्य तौर पर खानपान वाली वस्तुएं और दवाईयां बेचते हैं;
- सभी आउटडोर रेक्रिएशनल कोर्ट्स और स्पोर्ट्स फील्ड, जैसे गोल्फ कोर्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स और सॉकर फील्ड्स बंद रहेंगे; और
- शादी, अंतिम संस्कार और धार्मिक सेवाओं, रस्मों या समारोहों में इनडोर या आउटडोर लोगों की कैपेसिटी 10 व्यक्तियों तक सीमित है। एक ही घर के सदस्यों या उस घर के बाहर वाले एक अन्य व्यक्ति, जो अकेला रहता है, के साथ इकट्ठे होने के सिवाय, इन सेवाओं से जुड़े रिसेप्शन जैसे सामाजिक जनसमूहों पर पाबंदी है। ड्राइव-इन सेवाओं की अनुमति है।

गैर-जरूरी रिटेल के लिए, [पूरे प्रांत में एमरजेंसी ब्रेक \(provincewide emergency brake\)](#) के अंतर्गत अन्य सभी पब्लिक हेल्थ और कार्यस्थल संबंधी सुरक्षा उपाय (जैसे कर्बसाइड पिक-अप और केवल डिलीवरी), लगातार लागू रहेंगे।

[यहां \(here\)](#) अधिक जानकारी प्राप्त करें।

#### सिटी की सेवाएं और फैसिलिटीज

##### *सिटी हॉल और कापरेट फैसिलिटीज*

सिटी हॉल (City Hall) और कापरेट फैसिलिटीज, केवल मुलाकात बुक करके व्यक्तिगत सेवाओं के लिए खुली रहेंगी। बिना मुलाकात बुक किए आने की अनुमति नहीं है। मुलाकात बुक करने के लिए [www.brampton.ca/skiptheline](http://www.brampton.ca/skiptheline) पर जाएं।

##### *सिटी के रेक्रिएशन सेंटर और आउटडोर सुविधाएं*



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी रेक्रिएशन फैसिलिटीज, जनता के लिए बंद रहेंगी और इनडोर प्रोग्राम, अगले नोटिस तक स्थगित ही रहेंगे।

सभी आउटडोर रेक्रिएशनल कोर्ट्स और स्पोर्ट्स फील्ड, जैसे गोल्फ कोर्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स और सॉकर फील्ड्स, सीमित छूटों के साथ बंद रहेंगे। प्लेग्राउंड खुले रहेंगे।

पार्क और ट्रेल्स खुली रहेंगी। वॉशरूम फैसिलिटीज, चिंग्कूजी पार्क (Chinguacousy Park) और ऐल्डोराडो पार्क (Eldorado Park) में उपलब्ध हैं।

### **वर्चुअल प्रोग्राम**

#### **वर्चुअल फिटनेस**

निवासियों को कुशल इंस्ट्रक्टर के साथ 30 मिनट की मुफ्त लाइव वर्चुअल फिटनेस क्लासों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

#### **55 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए वर्कशॉप्स**

ब्रैम्पटन के 55 वर्ष के और इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग, घर से ही आराम से की जाने वाली मुफ्त वर्चुअल वर्कशॉप्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और व्यस्त रहने के ऑनलाइन सेशन से जुड़ सकते हैं। हिस्सा लेने वालों के पास, सुरक्षित और संगठित वातावरण में लोगों से मिलने-जुलने, नए दोस्त बनाने तथा ऑनलाइन, दूसरों से जुड़ने का अवसर होगा।

#### **भागीदारी वाली वर्चुअल गतिविधियां और वर्कशॉप्स**

यह सीरीज, विकलांग और अन्य असामान्यताओं वाले भागीदारों के लिए, गतिविधियों से जुड़ने, कुछ नया सीखने और अपनी उम्र के लोगों के लिए मज़बूत दोस्ती करने का शानदार अवसर है।

रजिस्टर कैसे करना है, इस बारे में विवरणों सहित, वर्चुअल पेशकशों संबंधी अधिक जानकारी, [यहां \(here\)](#) पर प्राप्त की जा सकती है।

#### **रेक एट होम**

घर में ही, स्व-निर्देशित ऑनलाइन आर्ट्स और क्राफ्ट्स के ट्यूटोरियल्स के साथ तंदरुस्त रहें और जुड़े रहें, जो 24/7 सुलभ है! सीखें कि ओरगैमी हार्ट कैसे बनाए जाते हैं, अपने सुंदर लिखावट (कैलीग्राफी) कौशलों का अभ्यास करें। ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (Brampton Recreation) के द्वारा प्यार से तैयार की गई, रेक एट होम (Rec At Home) गतिविधियों तक [यहां \(here\)](#) पहुंच प्राप्त करें।

#### **आवश्यक चेहरा ढकना**



आवश्यक चेहरा ढकना (मैन्डेटरी फेस कवरिंग्स) बाइ-लॉ (Mandatory Face Coverings By-law) के अंतर्गत, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना या चेहरे को ढकना जरूरी है। सार्वजनिक संस्थानों और कारोबारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नियंत्रण वाली इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, सभी लोग मास्क पहन रहे हैं या चेहरा ढक रहे हैं।

बाइ-लॉ कुछ व्यक्तियों को छूट देता है। इनमें शामिल हैं, वे व्यक्ति, जो मेडिकल कारणों से मास्क नहीं पहन सकते या चेहरा नहीं ढक सकते; दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे; एमरजेंसी ऑर्डर्स (Emergency Orders) के अनुसार एथलेटिक गतिविधि में शामिल व्यक्ति। अधिक जानकारी के लिए: [www.brampton.ca/masks](http://www.brampton.ca/masks) पर जाएं।

अधिक जानकारी और सेवा अनुरोधों के लिए, निवासी और कारोबारी 311 पर फोन कर सकते हैं, [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) पर जा सकते हैं या 311 मोबाइल ऐप का प्रयोग कर सकते हैं।

### वैक्सीनेशन

ब्रैम्पटन के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी निवासी, अब अपनी कोविड-19 वैक्सीन मुलाकात बुक करने के लिए योग्य हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी के लिए और मुलाकात बुक करने के लिए, प्रांत के [वैक्सीन पोर्टल \(vaccine portal\)](#) पर जाएं।

### लिंक

इनके बारे में और जानें:

- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की कोविड-19 प्रोग्रामिंग और सेवा अपडेट्स \(City of Brampton COVID-19 programming and service updates\)](#)
- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन – क्या खुला है, क्या बंद है \(City of Brampton – what's open, what's closed\)](#)
- [कोविड-19 के लक्षण \(COVID-19 symptoms\)](#)
- [कोविड-19 वैक्सीन \(COVID-19 vaccine\)](#)
- [ब्रैम्पटन में टेस्टिंग \(Testing in Brampton\)](#)
- [खुद को दूसरों से अलग कैसे रखना है \(How to self-isolate\)](#)
- [कोविड-19 के दौरान कारोबारों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखना \(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19\)](#)
- [पील में कोविड-19 के केस \(Cases of COVID-19 in Peel\)](#)



# BRAMPTON

## Service and Information Update

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)